

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 नवम्बर 2016—अग्रहायण 1, शक 1938

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्र. एफ-31-3-2014-दो-ए(3).—विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-31-3-2014-दो-ए(3), भोपाल दिनांक 16 नवम्बर 2014 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के व्यवस्थापन एवं पुर्नवास हेतु गठित समामेलित विशेष निधि की राज्य प्रबंध समिति में मनोनीत अशासकीय सदस्य मेजर जनरल एस. आर.सिन्हो एवं श्री आर. एन. प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर 02 सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों को अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है.

राज्य शासन उक्त अधिसूचना के क्रमांक 2 में उल्लेखित शब्द "मेजर जनरल पी. एन. त्रिपाठी के स्थान पर" 2-एयर कमोडोर आर. के. पाल (से. नि.) फ्लेट नं. 201, डीके गोल्ड, जी-3 गुलमोहर कालोनी भोपाले" पढ़ा जाय.

शेष अधिसूचना यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.